

## प्रेस नोट

थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दिल्ली से चुरायी हुई ECCO गाडी, कटे हुए वाहनों के पार्ट्स व उपकरण बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए जिनके कब्जे से दिल्ली से चुरायी हुई ECCO गाडी, कटे हुए वाहनों के पार्ट्स व उपकरण बरामद हुए।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 14.06.2022 की प्रातः थाना नौगांवा सादात पुलिस द्वारा सूचना पर बीलना नहर पर चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे ECCO गाडी सवार 02 अभियुक्त 1. मौ0 वाजिद अली पुत्र जाबिर हसन निवासी जाजरु थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा 2. मौ0 नाजिम पुत्र अनवार निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिनके 02 अन्य साथी अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से गैर प्रान्त दिल्ली से चोरी की गयी ECCO कार रजि0 नं0 DL9CAM 7309 बरामद हुई ।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जोकि आर्थिक लाभ लेने हेतु वाहनों की चोरी कर वाहनों के पार्ट्स को काटकर अलग-अलग करके बेच देते है। पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा मौहल्ला इस्लामनगर कस्बा नौगांवा में चोरी किए हुए वाहनों का अलग-अलग काटना बताया गया जिनकी निशादेही पर मौहल्ला इस्लाम नगर से चोरी किए हुए वाहनों के कटे हुये पार्ट्स व वाहनों को काटने वाले उपकरण बरामद हुए । बरामद ECCO कार रजि0 नं0- DL9CAM 7309 को अभियुक्तगण द्वारा अपने फरार साथियों के साथ मिलकर सिन्ध कॉलोनी स्वरूप नगर दिल्ली से दिनांक 12.06.2022 को चोरी करने की घटना को स्वीकार किया है ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 16324/22 धारा 379 भादवि थाना स्वरूपनगर आउटर नार्थ दिल्ली) । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नौगांवा सादात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । फरार अभियुक्तों की



गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. वाजिद अली पुत्र जाबिर हसन निवासी ग्राम जाजरु थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा ।
2. मौ0 नाजिम पुत्र मौ0 अनवार निवासी मौ0 इस्लामनगर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की एक इको कार रजि0 नं0- DL9CAM 7309, चेचिंस नं0- MA3ERLF1S00523644, इंजन नं0- G12BN500716
2. कटी हुए वाहनों के पार्टस (4 सलेन्डर ,एक गैस कटर मय रबर पाईप, 06 सीटे, 04 बैट्री,07 हेड लाईट ,05 बैक लाईट, 04 खिडकी, 04 नम्बर प्लेट, तीन बम्फर काले रंग प्लास्टिक आदि ।
3. कार काटने के औजार( एक हथौडा लोहे का, 02 लोहे के बाँट 20 KG व 05 KG, एक लोहे के बक्से मे 18 चाबिया छोटी बडी, 02 चाबी एक तरफ मुहँ ,03 पाना सादा ,06 पाना एक मुहँ वाले , 01 पाना चार मुहँ वाला व एक पाई रिन्च) आदि ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त वाजिद -

1. मु0अ0स0 192/2022 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/413/414 आईपीसी थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 16324/22 धारा 379 भादवि थाना स्वरूपनगर आउटर नार्थ दिल्ली ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ0 नाजिम-

1. मु0अ0सं0 192/2022 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/413/414 आईपीसी थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0सं0 16324/22 धारा 379 भादवि थाना स्वरूपनगर आउटर नार्थ दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्त कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री नरेश पाल सिंह राना थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
4. हे0का0 159 श्यामवीर सिंह थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
5. का0 1144 यशवीर सिंह थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
6. का0 985 अंकुर कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
7. का0 1058 चन्दवीर सिंह थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।
8. का0 72 सतेन्द्र कुमार थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA